

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली
हौज खास, नई दिल्ली -110016
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
Hauz Khas, New Delhi-110016
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP04870G/

Dated:27/11/2024

Advertisement No.: IITD/IRD/282/2024

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।


Title of the Project	Development of 2 pm and 4 pm Laser source for countermeasure applications. (RP04870G)	
Funding Agency	Ministry of Defence, New Delhi	
Name of the Project Investigator	Prof. Ritwick Das [email ID: dasritwick@iitd.ac.in]	
Deptt./Centre	Optics and Photonics Centre	
Duration of the Project	Upto:15/10/2027	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Principal Project Scientist (01)	Rs.75,600 - 77,870 - 80,210 - 82,620 - 85,100 - 87,650 - 90,280 - 92,900 - 95,780 - 98,650 - 1,01,610/- p.m. plus HRA @ 27%	a) Ph.D. in Physics/Optics/Photonics from a recognised University with first class in M.Sc. + 1 year of post-Ph.D. experience in Optics and Photonics or b) M.Tech./M.Sc. in Optics and Photonics or related academic programs + 6 years of experience after completion of M.Tech./M.Sc. program Note: Preference will be given to candidates having experience in experimental optics and photonics.

The posts may be downgraded as per discretion of the Selection Committee if none of the candidate is found suitable for the post.

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. to **Prof. Ritwick Das** by e-mail with advertisement No. on the subject line at email id: dasritwick@iitd.ac.in

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the online interview details. Only short-listed candidates will be informed for online interview. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact **Prof. Ritwick Das** at email id: dasritwick@iitd.ac.in

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। **The last date for submitting the completed applications by email is 12/12/2024 by 5.00 p.m.**


सहायक कुलसचिव, आईआरडी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units : Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD :
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Ritwick Das, Optics and Photonics Centre
- Copy to Chairperson, DRC/CRC

It is requested that the contents of the above Advt. be brought to the notice of the staff working in your To put advertisement at IITD website.